



OFFICE OF THE PRINCIPAL
GOVIND SARANG GOVT. LAW COLLEGE, BHATAPARA
DIST.- BALODABAZAR-BHATAPARA (C.G.)

**College
Code
1210**

Phone No-07726-222912

Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

Bhatapara, Date: 02/ 03/2023

Teachers of the Institution participate in following activities related to curriculum development and assessment of the affiliating University and other colleges and/are represented on the following academic bodies during the last five years

S.No	Details of program	Name of Assistant Professor
1	Academic council/BoS of Affiliating university	Dr. D.D.Prusty
2.	Setting of question papers for UG/PG programs	Dr. A.L.Dhruwanshi Dr. Rita Diwan Dr. R.A. Shrivastava
3.	Assessment /evaluation process of the affiliating University	Dr. A.L.Dhruwanshi Dr. Rita Diwan Dr. R.A. Shrivastava

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय जे० योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय,
बैरन बाजार रायपुर 492001 / ☎ 0771-2427126

क्रमांक :/22

रायपुर दिनांक 27/03/2022

प्रति,

डा० डी. डी. पुष्टि
प्रभारी प्राचार्य
गोविन्द साहू शासकीय विन्ध्य महाविद्यालय
भादपुरा

विषय : स्वशासी योजनांतर्गत अध्ययन मंडल (Board of Studies) में विषय विशेषज्ञ के रूप में मनोनयन।

महोदय,

इर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि इस महाविद्यालय के स्वशासी योजनांतर्गत अध्ययन मंडल हेतु विषय..... विन्ध्य..... में आपको विषय विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन तीन वर्षों के लिए होगा।

आशा है कि विषय विशेषज्ञ के रूप में आपके अनुभव एवं सक्रिय सहयोग से यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।


(डॉ० अमिताम बैनजी)

प्राचार्य

शास० जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महा०

रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य

शास. जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय

रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय जे० योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय,
बैरन बाजार रायपुर 492001 / ☎ 0771-2427126

क्रमांक :/22

रायपुर दिनांक 27/07/2022


प्रति,

डा० डी.डी. फुट्टे
प्रभारी प्राचार्य
गोविंद साहू शासकीय विधि मंडल
भरपाया

विषय :- महाविद्यालय की स्वशासिता के अध्ययन मण्डल की बैठक सत्र 2022-23 ।

सत्र 2022-23 के लिए विधि विषय के
3.A में law as an optional subject
स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु दिनांक 29/07/2022 को पूर्वाह्न/अपरान्ह
2.00 बजे कक्षा क्रमांक विधि विभाग में विभागीय अध्ययन
मण्डल की बैठक में आप विषय विशेषज्ञ/मेधावी पूर्व छात्र-सदस्य के रूप में सादर आमंत्रित है ।

इस कार्य हेतु आपको स्वशासी नियमानुसार यात्रा भत्ता एवम् अन्य भत्तों की पात्रता
होगी ।


27/07/2022
विभागाध्यक्ष

Dr. (Smt.) Vineeta Agrawal
Prof. & Head Department of Law
Govt. J.Y. Chhattisgarh College
Raipur (C.G.)



प्राचार्य
प्राचार्य
डा. जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

ACCEPTANCE

From,

Dr. A. L. Dhawan Shri

Dept. of political science

PA-324

Govt. Navayen Laid college Bhuta Para

TO,

Distt. Baloda Bazar Bhuta Para

Controller of Examination
Bilaspur Vishwavidyalaya
Bilaspur (C.G.) 495001

Sir,

With reference to your confidential letter Date 19.11 2017

I have the honour to inform you that I am willing to act as Paper-setter & examiner in paper
..... for the M.A. Final Part examination of 2017.

shall deliver the paper latest by 27.11 2017 positively.

2. Beside the above, I have also accepted examinership of the University in the following
examinations subject in 2017.....

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

3. I hereby certify that to the best of my knowledge none of my close relations, i.e. wife husband, son, daughter, grand-son grand-daughter, brother, sister, niece, nephew, grand-niece grand-nephew, uncle, aunt first cousin, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law and sister-in-law is not likely to appear in the paper set or examined by me (including oral and practical examinations, if any) In case I subsequently, come to know that any of my close relations or dependent of the above category is an examinee, I shall at once inform you of the same by Registered post

4. I declare that I full fill the following qualifications for the appointment of paper-setter and given below the details of my teaching experience for the information of the University - "No person shall be eligible for appointment as Paper-setter and examiner in all the examinations". Unless he/ she has expenence of teaching the subject at degree and/or post-graduate level for at least seven years".

5. I shall abide by all rules, regulations and instructions issued to me by the University from time to time.

P.T.O.

(2)

Examination	Experience in years of teaching the subject to	
	Post Graduate Classes	Degree Classes
1. B.A. / B.Sc. / B. H. Sc. / B. Com. / B. Ed. / B.B.A. / B.C.A. / B.P.Ed. / M.Ed. / M.P. Ed.	22 years	29 years
2. M.A. / M.Sc. / M. Com. / M.Ed. / M. P.Ed.		
3. Other Examination		

(PARTICULARS REGARDING THE EXAMINER)

Full Name (Book letters) Dr. A. L. Shrivastava
 Qualification M.Phil L.L.B. Ph.D
 Designation A. Professor Political Science
 Full Postal Address (Office) Panna Nagar Ring Road No. 02 front of
 (Resi) Parijat Castle Bilaspur
 Phone No. (If any) _____
 Office _____
 Residence 9907998484 Pin Code _____
 Fax No. _____
 e.mail add. _____ Railway)

In case of change in my address, I shall inform you of the same by Registered Post.

Date : 27.11.2017

Station : Bilaspur

Yours faithfully


(Signature)

REFUSAL

With reference to your confidential letter Code No. Date 20 this is to
 inform you that I am not willing to set the questions paper due to the reason.

I am returning herewith all the material sent to me.

Yours faithfully

Date 20

(Signature)



GOVT. BILASA GIRLS' P.G. COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Dated Bilaspur the *13/11/18* 2018
Controller : *gumrbw63*
Asst. Controller :

Ph. No.

To, *Dr. A. L. Shrivastava*

Dear Sir/Madam

I am directed to inform you that the Govt. Bilasa Girls' P.G. College BSP has appointed you to be the paper setter and examiner/one of the valuers for evaluation of answer scripts of the *B. A. II Sem 2018* Paper *राजनीति विज्ञान Western Political Thought* carrying *80* Marks of the *III Sem* Examination *2018*

2. The written part of the examination will commence on *II week of Nov 2018* and is expected to conclude in about a fortnight, presuming that you are prepared to accept appointment I have enclosed herewith all the relevant papers in subject as per list given below.

3. I shall be thankful if you kindly send your consent on the enclosed form (C-3) on before *7 days* In case you are unable to accept the appointment, it is requested that papers sent herewith may please be returned with your reply.

4. It is requested that *two* / one question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus (for those who are requested to set Two Question Papers) **The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper setter.** It may kindly be noted that English Version of each question is to be given immediately below the Hindi Version in all. Subject excepts language paper i.e. Hindi, English & Urdu for all the Examinations and papers of M.S.

The question papers are to be sent in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent Registered Post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers (sent here with) duly sealed at both the ends. within 15 days of this letter to the under signed by the name.

5. You are requested to keep your appointment STRICTLY CONFIDENTIAL and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

6. You are further requested to send the detailed the memorandum of instruction for evaluating the answer scripts alongwith question paper (in separate envelopes for each question paper separately) sent for the purpose. If memorandum is received your paper is liable to be rejected.

Note : Special attention is invited to the following :-

- a) If son / daughter / wife / husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained admission in the subject for which the appointment has been offered. He is requested to inform the under signed return the papers sent herewith.
- b) The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts / preparing, Memorandum of instruction may please be seen in the appendix attached.

कृपया नीचे लिखे के prospectus में वापस करें

Your faithfully,
[Signature]
Controller of Exam

Enclosures :-

- 1- Form of acceptance (C-IV) with a cover marked (Acceptance)

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G)Bilaspur, Dated 10/11 2018

To,
Dr. A. L. Dhruwanski
Pat Se Dep.
Govt College Bhatapora

Dear Sir / Madam,

I am directed to inform you that Bilaspur Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner/one of the valuers for evaluation of answer scripts of the Political Science Paper II carrying 75 marks of the B-A Part II Examination 2018.

The written part of the examination will commence on March-April 2018 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.

I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form (C-3) on or before 7 days in case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the paper sent here with may please be returned with your reply.

It is requested that ~~the~~ question paper (s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus (For those who are requested to set Two Question Papers) One of the question paper will be used by the Vishwavidyalaya for the Nov. / Dec. and the other for March / April Examination under the semester system Examination or one for the March/April and other for supplementary Examinations. Under the Annual system of the Examination of Graduation Examination if provided for **The question paper should not be marked as Annual or Supplementary by the paper setter.** It may kindly be noted that English version of each question is to be given immediately below the Hindi Version in an subjects except language paper i.e. Hindi, English, Urdu, Sanskrit, for all the Examination and papers of M.Sc., Examination

The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent through **Registered Post Insured for 100/-** in double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the ends **within 15 days** of this letter to the undersigned by the name.

You are requested to keep your appointment **STRICTLY CONFIDENTIAL** and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

NOTE : **Special attention is invited to the following :-**

- If son / daughter / Wife / husband or any near relation of dependent of any person who has been offered appoint as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at, examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned and return the papers sent here with.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts may please be seen on Remuneration Bill in the appendix attached.
- The total remuneration for all the examination which a person will be entitled to get in a financial year shall not exceed **Rs. 30,000/-** in case your remuneration for acting as an examiner exceed **Rs. 30,000/-** the excess amount shall be credited in the University Account.

Enclosures :-

- Form of acceptance (C-3) with a cover marked (Acceptance).
- Instruction for paper setters and appendix for the remuneration.
- Syllabus prescribed for the paper.
- Question paper of the last year for Sample.
- Cover for sending the question paper.
- Declaration form.

Yours Faithfully

Modi Dr. U. K. Srivastava
 Controller of Examinations

NOTE : - Please refer to the instruction attached herewith before you set the paper.

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

Bilaspur, Dated 5/11/2018

Dr. A. L. Dhruvanshi
 P.O. Sec. Dept.
 Govt. B.S.P. College Naveen Law College Bhatapara
 Bhopal

Dear Sir / Madam,

I am directed to inform you that Bilaspur Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner/one of the valuers for evaluation of answer scripts of the Political Science Paper I carrying 75 marks of the BA Part III Examination 2018.

The written part of the examination will commence on March - April 2018 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.

I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form (C-3) on or before 7 days in case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the paper sent here with may please be returned with your reply.

It is requested that two question paper (s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus (For those who are requested to set Two Question Papers) One of the question paper will be used by the Vishwavidyalaya for the Nov. / Dec. and the other for March / April Examination under the semester system Examination or one for the March/April and other for supplementary Examinations. Under the Annual system of the Examination of Graduation Examination if provided for **The question paper should not be marked as Annual or Supplementary by the paper setter.** It may kindly be noted that English version of each question is to be given immediately below the Hindi Version in an subjects except language paper i.e. Hindi, English, Urdu, Sanskrit, for all the Examination and papers of M.Sc., Examination.

The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent through **Registered Post Insured for 100/-** in double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the ends **within 15 days** of this letter to the undersigned by the name.

You are requested to keep your appointment **STRICTLY CONFIDENTIAL** and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

NOTE : Special attention is invited to the following :-

- If son / daughter / Wife / husband or any near relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at, examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned and return the papers sent here with.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts may please be seen on Remuneration Bill in the appendix attached.
- The total remuneration for all the examination which a person will be entitled to get in a financial year shall not exceed **Rs. 30,000/-** in case your remuneration for acting as an examiner exceed **Rs. 30,000/-** the excess amount shall be credited in the University Account.

Enclosures :-

- Form of acceptance (C-3) with a cover marked (Acceptance).
- Instruction for paper setters and appendix for the remuneration.
- Syllabus prescribed for the paper.
- Question paper of the last year for Sample.
- Cover for sending the question paper.
- Declaration form.

NOTE : - Please refer to the instruction attached herewith before you set the paper.

Yours Faithfully

Mdm
 Controller of Examinations

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

Bilaspur, Dated 18/11/2018

To,

Dr. A. L. Dhruwanshi
 Pat Se Dep.
 G. S. College Bhatapara.

Dear Sir / Madam,

I am directed to inform you that Bilaspur Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner/one of the evaluators for evaluation of answer scripts of the Political Science Paper II carrying 75 marks of the B-A Part II Examination 2018.

- The written part of the examination will commence on March-April 2018 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form (C-3) on or before 7 days in case you are unable to accept the appointment, **it is requested that all the paper sent here with may please be returned with your reply.**
- It is requested that ~~two~~ one question paper (s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus (For those who are requested to set Two Question Papers) One of the question paper will be used by the Vishwavidyalaya for the Nov. / Dec. and the other for March / April Examination under the semester system Examination or one for the March/April and other for supplementary Examinations. Under the Annual system of the Examination of Graduation Examination if provided for **the question paper should not be marked as Annual or Supplementary by the paper setter.** It may kindly be noted that English version of each question is to be given immediately below the Hindi Version in an subjects except language paper i.e. Hindi, English, Urdu, Sanskrit, for all the Examination and papers of M.Sc. Examination.
- The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent through **Registered Post Insured for 100/-** in double sealed covers (sent herewith) **duly sealed by both the ends within 15 days** of this letter to the undersigned by the name.
- You are requested to keep your appointment **STRICTLY CONFIDENTIAL** and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

NOTE : **Special attention is invited to the following :-**

- If son / daughter / Wife / husband or any near relation of dependent of any person who has been offered appoint as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at, examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned and return the papers sent here with.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts may please be seen on Remuneration Bill in the appendix attached.
- The total remuneration for all the examination which a person will be entitled to get in a financial year shall not exceed **Rs. 30,000/-** in case your remuneration for acting as an examiner exceed **Rs. 30,000/-** the excess amount shall be credited in the University Account.

Enclosures :-

- Form of acceptance (C-3) with a cover marked (Acceptance).
- Instruction for paper setters and appendix for the remuneration.
- Syllabus prescribed for the paper.
- Question paper of the last year for Sample.
- Cover for sending the question paper.
- Declaration form.

Yours Faithfully

M. D. S. Shrivastava
 Controller of Examinations

NOTE :- Please refer to the instruction attached herewith before you set the paper.

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

No. Cont/ABV/20

Bilaspur, Dated 16/4/19

To
Dr. AL. Shrawanli,
Depts. of Pol. Sc
Govt. Gajananal college,
Bhalapaha.

Code No. : AG 1386, 1387, 1388,
1389
Bundle No. : M 1276/1, 1276/2,
N 1276/3, 1276/4

Sir/Madam,

I am Directed to send a consignment containing 39+39+38+38 written answerbooks duly sealed by Rail Post/Messenger of the candidates examined in
Paper MAEP) Pub. Admin for the
examination held on MAEP) Pub. Admin. A set of the relevant papers is also sent along with the packet of the answerbooks

1. You are requested to go through the paper and start valuation of the answerbooks as per instructions of the held examiner (if attached)
2. The maximum and minimum number of marks in the paper/subject must be kept in view while valuing the answer books
3. A complete set of material along with Foils/Counter foils is sent herewith. The marks should be written in serial order (Roll number-wise) in the Foils/Counter foils. The Foils/Counter foils are to be sent in single cloth lined envelope duly sealed & delivered in person or by Registered post to the Controller of Examination. Foils/Counter foils should be despatched by you to the Controller of Examination within seven days.
4. The answer books shall be scrutinized and marks re-totaled before the result are declared hence the answer books should be returned to the University within three days from the date of despatched of foil/counter foil others it will delay of the declaration of results.
5. Please do not send Foils/Counter foils in the bundle of answer books, send them separately. Postage expenses will be reimbursed.

Kindly acknowledge receipt of answer books on the prescribed form.

Encl. (1) RR No. _____ Dated _____
(2) Instructions

Yours faithfully
Marley
Controller of Examination

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

CONFIDENTIAL AND MOST URGENT

FORMAT 6

3 DEC 2021

To,
Dr. A.L. Dhruvanshi
Am. Prof. Pol. Sci.
Govt. College Bhatapara

Bilaspur, Dated

Code No. PE-324

Dear Sir/madam,

- I'm directed to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishw., Bilaspur has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code PE-324 Subject/Paper Name/Title of paper of Exam code & Name
BHARAT KI VIDESH NITI SIDHANT EVAM VYAVHAR
(443) M.A. POLITICAL SCIENCE (THIRD SEMESTER)
carrying (maximum marks) 080 and minimum passing marks of the Annual (Main)/ Semester/Supplementary Examination, 2021-22 Session 2021-22
- The theory/written part of the examination will commence on 29th 2021 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that ONE/TWO question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwa Vidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examinations and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwa Vidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
- The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within 07 (SEVEN) DAYS to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwa Vidyalaya, Bilaspur (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
- You are requested to keep your assignment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee, Vishwa Vidyalaya, Bilaspur (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- If son/daughter/wife/husband or any close relation of dependant of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed Rs. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

- Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
- Instruction for Examiner (a)
- Remuneration Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
- Syllabus prescribed for the subject/paper.
- Declaration form.
- Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEM OF EXAMINATION
- Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF two paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
- Send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwa Vidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur (C.G.) Pin Code 495001

Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Yours Faithfully

Madhu
Controller of Examination

प्रश्नपत्र के संलग्न नमूने में उल्लेखित
परीक्षा/अंक योजना के अनुसार ही
प्रश्न पत्र रचना करेंगे।

संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार

ही प्रश्नपत्र रचना करेंगे। 25वें वाक्यपुस्तक को 3 लिफाफा

में बांटा रखते हुए वापस प्रेषित करें।

Page 250 of 508

9

Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)
CONFIDENTIAL AND MOST URGENT

FORMAT 6

To,

Raigarh, Dated 15/12/2021

Code No. AA-2291

डॉ. ए. कुवेंशी राजनीति विज्ञान
शा. महाविद्यालय भुवनेश्वर (ध.ग)
भारतपारा

Dear Sir/madam,

- I'm directed to inform you that Shaheed Nandkumar Patel V.V., Raigarh has appointed as you to be the Examiner of the subject/paper Code **AA-2291** = Subject/Paper Name/Title of paper of Exam code & Name
ANTARASHTRIYA RAJNITI
(441) M.A. POLITICAL SCIENCE (FIRST SEMESTER)
carrying (maximum marks) **080** and minimum passing marks **029** of the Annual (Main)/ Semester/Supplementary Examination, 2021 and 2022 of Session **2021-22**
- The theory/written part of the examination will commence on **DEC. 2021 JAN 22** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form on or before days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that **ONE/TWO** question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
- The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR in double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
- You are requested to keep your assignment Strictly Confidential and address all Correspondence in this connection to the Deputy Registrar Exam of Shaheed Nandkumar Patel, Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- If son/daughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed Rs. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

- Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
- Instruction for Examiner (s)
- Remuneration Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
- Syllabus prescribed for the subject/paper.
- Declaration form.
- Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
- Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and if two paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
- send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Gohumaria, Odisha Road, Raigarh (C.G.)
Pin Code 495901

Yours Faithfully

★ Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Deputy Registrar (Exam)

10

Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)
CONFIDENTIAL AND MOST URGENT

FORMAT 6

To,

Raigarh, Dated 16/02/2022

Code No. AA-1501

श्री. ए. एन. ए. लुंदरी
शाहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय
भारतपार (द.ग.)

Dear Sir/madam,

1. I'm directed to inform you that Shaheed Nandkumar Patel V.V., Raigarh has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code **AA-1501** = Subject/Paper Name/Title of paper of Exam code & Name
COMPRATIVE PUBLIC ADMINISTRATION
(022) M.A. (FINAL) PUBLIC ADMINISTRATION
carrying (maximum marks) **100** and minimum passing marks **036** of the Annual (Main)/ Semester/Supplementary Examination, 2021 and 2022 of Session 2021-22
2. The theory/written part of the examination will commence on **MAR-APR, 2022** and it is expected to conclude in about a fortnight presuning that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
3. I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
4. It is requested that **ONE/TWO** question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper: (a) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
5. The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
6. You are requested to keep your assignment strictly confidential and address all Correspondence in this connection to the Deputy Registrar Exam of Shaheed Nandkumar Patel, Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- A. If son/daughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- B. The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- C. The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed Rs. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

1. Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
2. Instruction for Examiner (s)
3. Remuneration Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
4. Syllabus prescribed for the subject/paper.
5. Declaration form.
6. Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
7. Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and if two paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
8. send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Garhwaria, Odisha Road, Raigarh (C.G.)
Pin Code 495001

Note. Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Yours Faithfully

Deputy Registrar (Exam)

शासकीय दू.ब.महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

(प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध)

कक्षाक / गोपनीय /
Dr. Reeta Diwan

दिनांक 22/1/2022

कोड नं Soc/102/21-22

महोदय / महोदया

महाविद्यालय द्वारा आपको वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा हेतु परीक्षक नियुक्त किया गया है।

आप कक्षा MA 1st Sem विषय Sociology प्रश्नपत्र II

प्रश्न पत्र शीर्षक Research Method.

का) सेट बनाकर 02 दिनों के अंदर भेजने की कृपा करेंगे।

इस पत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम तथा गतवर्ष का प्रश्नपत्र एवं संशोधित नियम नमूनार्थ संलग्न हैं। कृपया पृष्ठांकित सूचना का अवलोकन करें।

(डॉ. अमया जोगलेकर)

परीक्षा नियंत्रक

शासकीय दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

मौ. 94252-03225

पत्र व्यवहार क्रो. पता

परीक्षा नियंत्रक

स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ

शासकीय दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)। पिन-492001

संपर्क हेतु फोन नं. 0771-2229248

डॉ. रीता विद्यान
गोविंद सांग्रवालकीय विश्व
सहायिकालय भद्रापादा (द.ग.)

दिनांक: 28/07/22

पत्र सं. AA-2019

It is requested that you as the Director, Shaheed Nandkumar Patel V.V.V., Raigarh has appointed as you
of the Exam. of all the sub disciplines. **AA-2019** Subject/Paper Name/Title of paper
of Exam code & Name

**SOCIOLOGY-II
(102) B.A. L.L.B. (II SEM.)**

As per the Registrar's Circular No. 100 and Registrar's circular No. 036 of the Annual (Main)/
Supplementary Examinations, 2021 and 2022 of Division 2021-22
of the Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh for **JULY-AUG. 2022** session, it is requested to
appoint you as the Examinator for the subject of **SOCIOLOGY-II** for the subject of **JULY-AUG. 2022** session. I have
enclosed herewith the relevant papers on the subject as per list given below.
I shall be thankful, if you would kindly send your consent on the enclosed form on or
before **07 (SEVEN) DAYS**. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that
all the papers sent herewith, please be returned with your reply.
It is requested that **ONE/TWO** question papers be prepared in accordance with the enclosed
specimen for those who are requested to set the question papers. One of the question
papers will be the question paper for the first year of B.A. (Soc. Examinations) and one
more for the April/May or June/July Examination under the computer system or one of the
subject papers will be revised by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and
other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that
English Hindi version of each question of each qualification is to be given immediately
below the Hindi English version in respect of subject/paper (except language paper i.e.
Hindi, English, Sanskrit, Urdu and Urdu II) in all papers set of M.Sc. Examination.
The quest. in paper set are to be set in simple language with the syllabus and instructions sent
herewith and be restricted in number to what is set in the enclosed post insured for Rs. 100/-
and on double security with acknowledgment and return to both the end within **07 (SEVEN)**
DAYS to the Controller of Examinations of Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.) by
the name with address: Institution/College/University
The papers prepared by you are to be kept strictly confidential and address all
communications in this respect to the Deputy Registrar (Exam) of Shaheed Nandkumar Patel
Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)

NOTE: SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- 1. If you have any doubts in any case relative to dependent to any person or what case
you may apply to the Registrar for necessary clarification at the subject as per list given
below at examination of the subject for which the appointment has been offered, he has
to be consulted for the understanding and action to be taken in this regard.
- 2. The mode of remuneration prescribed for paper setting, evaluation and marking is given
below in the remuneration bill attached herewith.
- 3. The total remuneration for all the examinations which a person will entitle to get in a
financial year shall not exceed Rs. 10,000/- INR. In case your remuneration for acting as
examiner exceed Rs. 10,000/- INR, the excess amount shall be credited to the following account.

Enclosures/Attachments:-

- 1. Form of Acceptance with a cover envelope marked as **ACCEPTANCE**.
- 2. Instructions for Examiner (A)
- 3. Remuneration Bill (all relevant parts shall be filled by Examiner)
- 4. Syllabus prescribed for the subject/paper.
- 5. Declaration form.
- 6. Question paper of the last year/semester examination as **SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION**
- 7. Inner Cover/Envelope for Question Paper. If the paper is set by the Examiner then use post
yellow cover/envelope marked as **ORIGINAL-I** and if the paper is set by the Examiner then
use post yellow cover/envelope marked as **ORIGINAL-I** and **ORIGINAL-II**
- 8. Send **ACCEPTANCE, EXPLANATION, remuneration bill** (INNE) **COPY ENVELOPE, COPY OF QUESTION PAPER**
in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential) Controller of Examinations,
Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.) by the Post, Raigarh (C.G.)
Dist. Code 495002

* Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Yours faithfully,
Deputy Registrar (Exam)

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C. G.)

Tel. No. 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Dr. Rita Diwan
BhatnagarNo. Ex/O _____ Dated, Raipur the 18/1/21

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

M.S.W. (Third Sem) Exam Dec-Jan 2021-22Paper XIII Family Social Work carrying 80 marksat the next SEM Examination 2021-22

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below,

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK where there you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers in accordance with enclosed syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It is kindly noted that English version of each question is to be given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., I.B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharma, M.Pharma, B.Voc., B.P., Ed/M.P., Ed, LL.M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-


(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to Contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000 - in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs. 50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully


Dy. Registr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures -

1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same
2. Instructions for paper setters
3. Syllabus prescribed for the paper
4. Question paper of the last year Exam
5. Blank papers for writing the question papers
6. Cover A & B for sending the question paper
7. Declaration form.

Note :- Please refer to the instructions here to before you set the paper

Date: 18/11/2020

AHO-1376

डॉ. सीता दीवान

विभाग - समाजशास्त्र

शासक विधी महाठ माहापारा (दुआठ)

Dear Sir,
I am pleased to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur has appointed you as Ex-aminer in the examination of the subject/Paper Code **AHO-1376** Subject/Paper Name/Title of paper of Exam code & Name

SOCIOLOGY

(1900) B.A. PART-I (ONE) (PRIVATE) (ONLY FOR SUPPL. LAST CHANCE)

Maximum marks: **075** and minimum passing marks .. of the Annual (Main)/Semester/Supplementary Examination, ~~DEC-2019~~ of Session ~~2018-19~~

- The theory/written part of the examination will commence on **MAR-APR. 2020** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form or or before **02** days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that **ONE/TWO** question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
- The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) your name with address/institution/College/University.
- You are requested to keep your assignment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee, Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- If son/dughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed RS. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

- Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
- Instruction for Examiner (s)
- Remuneration Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
- Syllabus prescribed for the subject/paper.
- Declaration form.
- Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
- Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF two paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
- send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur Pin Code 495001

Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Yours Faithfully

Controller of Examination

Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)
CONFIDENTIAL AND MOST URGENT

FORMAT 6

Raigarh, Dated 20/12/2021

Code No. **AA-2008**

Dr. Pealy Diwan
Jyoti Law College
Rohatpur (Bihar)

Dear Sir/Madam,

I'm directed to inform you that Shaheed Nandkumar Patel V.V., Raigarh has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code **AA-2008** Subject/Paper Name/Title of paper of Exam code & Name

SOCIOLOGY
(101) B.A. L.L.B. (I SEM.)

carrying (maximum marks) **100** and minimum passing marks **036** of the Annual (Main)/ Semester/Supplementary Examination, 2021 and 2022 of Session 2021-22

- The Theory/written part of the examination will commence on **JAN-FEB, 2022** and it is expected to continue to about a fortnight provided that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before **07** days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that **ONE/TWO** question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
- The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- in detachable sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.) by post along with address Institution/College/University.
- You are requested to keep your assignment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the Deputy Registrar, Exam of Shaheed Nandkumar Patel, Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- If son/daughter/wife/husband or any close relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed RS. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Closures/Attachments:-

- Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
- Instruction for Examiner (s)
- Remuneration Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
- Syllabus prescribed for the subject/paper.
- Declaration form.
- Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
- Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF two paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
- send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Garhumaria, Odisha Road, Raigarh (C.G.)
Pin Code 495001

Yours Faithfully

Deputy Registrar (Exam)

Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
ATAL BIHARI VAJPAJEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

CONFIDENTIAL AND MOST URGENT

FORMAT 6

डॉ. रीता कविान

Bilaspur, Dated 18/1/2020

Code No. AH-1026

विभाग- समाजशास्त्र

शासन विद्या महा० भाटापारा (CG)

Dear Sir/Madam,

I'm directed to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishw., Bilaspur has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code **AH-1026** Subject/Paper Name/Title of paper of Exam code & Name:

SOCIOLOGY

(001) B.A. PART-I (ONE) (REGULAR)

- carrying (maximum marks) **075** and minimum passing marks .. of the Annual (Main)/
Semester/Supplementary Examination, ~~DEC 2019~~ of Session ~~2018-19~~ ✓
- The theory/written part of the examination will commence on **MAR-APR 2020** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevent papers on the subject as per list given below.
 - I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before **02** days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
 - It is requested that **ONE/TWO** question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
 - The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) by your home with address/institution/college/University.
 - It is requested to keep your assignment strictly confidential and address all the queries in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- If son/daughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed RS. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

- Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
- Instruction for Examiner (s)
- Remuneratin Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
- Syllabus prescribed for the subject/paper.
- Declaration form.
- Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
- Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF tow paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
- send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur (C.G.) Pin Code 495001

Yours Faithfully
M. K. S. K.

Controller of Examination

Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

शासकीय जे.योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 1/13 - स्ना. ग0/2021

दिनांक 21/12/21

स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा (2021)

कोड नं A - 2243

प्रति

डॉ०/प्रो० Dr. Reta Diwan

महोदय/महोदया,

स्वशासी योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर कक्षाओं में लागू की गई सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा के लिए आप परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप

एम0 कॉग0 : प्रश्न पत्र

एम0एस-सी0 : प्रश्न पत्र

एम0ए0 Sociology : प्रश्न पत्र - III (Industrial Development)

पी.जी.डी.सी.ए./एम.एस.डब्ल्यू : प्रश्न पत्र

का एक सेट तैयार कर सात दिनों के भीतर भेजने की कृपा करेंगे। इस कार्य के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक देय होगा।

नोट : यदि आप किसी कारण से प्रश्न पत्र सेट नहीं करना चाहते तो पत्र मूलतः वापस कर दें। संलग्न :-

1. प्राशिनको के निर्देश।
2. घोषणा पत्रक।
3. पाठ्यक्रम की प्रति।
4. प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए निर्धारित पत्रक।
5. पिछले सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्नपत्र।
6. लिफाफे।


परीक्षा नियंत्रक

शास0 जे. यो. छत्तीसगढ़ महा0 रायपुर,

मो. नं - 9406062360

दूरभाष कार्यालय - 0771-2427126



बस्तर विश्वविद्यालय

प्रपत्र - 1

जगदलपुर (धरमपुरा), जिला- बस्तर, (छ.ग.) 494005

(केन्द्र के लिए)

प्रति,

कुलसचिव,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

Bundles (89)

महाविद्यालय

195-108.

केन्द्र/परीक्षा का नाम

L.L.B. Part-I (IV Sem.)

विषय Law of Evidence

प्रश्न-पत्र संख्या

III

उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या

29

अनुपस्थित एवं अनुचित साधन के प्रकरणों के परीक्षार्थियों के

अनुक्रमांक


02

(ये अनुक्रमांक इस पत्र के पृष्ठभाग पर दिए जावें)

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल/डाक/व्यक्ति विशेष द्वारा प्रेषित कर रहा हूँ।

दिनांक : 15/07/2017.

प्रेषक : कुलसचिव,



(कार्यालय के लिए)

कोड नं.

मोबाईल नं.

प्रति,

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल/डाक/व्यक्ति विशेष द्वारा भेजा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि नीचे दिये गये प्रपत्र में उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति अधोलिखित अधिकारी के नाम से अलग लिफाफे में तुरन्त भेजे।

दिनांक :

कृते कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

प्रेषक : परीक्षक

(इसे परीक्षक भरे)

प्रति,

उप कुलसचिव गोपनीय
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पत्र क्रमांक दिनांक के साथ परीक्षा

केन्द्र की परीक्षा का नाम

विषय प्रश्नपत्र संख्या उत्तर पुस्तिकाओं

का सील किया हुआ बण्डल जिसमें उत्तर पुस्तिकाएँ हैं आपसे रेल/डाक/व्यक्ति विशेष द्वारा प्राप्त हुआ है।

दिनांक :

परीक्षक के नाम एवं हस्ताक्षर

DURG VISHWAVIDYALAYA, DURG (C.G.)

PHONE NO. 0788-2359300

From,

The Registrar, Durg Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)

To, Dr. Ramashish Shrivastava (Dept. of Law)
Govt. Naldeen College Bhatawala
No. Ex/C BD-913 Dated, 25.09.2017

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Durg Vishwavidyalaya, Durg has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in B.L.B. Part-II, 1st Sem.
Paper - III Administrative Law & R.T.I. - carrying 100 marks
at the next Part-II, 1st Sem. Dec. - 2017 Examination 2017

The written part of the examination will commence in the month of Dec. - 2017
Presuming that you are prepared to accept the appointment, I enclose herewith all the relevant papers on the subject mentioned above.

It is requested that the one/two question paper/s be prepared in accordance with enclosed syllabus. One of the question papers will be used by the University for the Sem./Main Examination and the other for the supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version in all the subjects except language papers for all the examinations leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.Ed., L.L.B., B.A. - L.L.B., B.B.A., M.Com., etc. The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent by Registered Post duly insured for Rs.- 100/- in double Sealed Covers enclosed (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B). The covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question papers are not received by the Registrar within the time fixed will IPSOFACTO, cease to be examiners.


You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

Note: Special Attention is invited to the following :

1. If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, it is requested to inform the undersigned in the letter of acceptance of appointment, and in such cases examinership is not permitted by the University.
2. The question paper on Mathematics should be sent along with its solutions.
3. Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 40000.00 (Forty Thousand). In case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs. 40000.00, the excess amount shall be credited to the Teachers Benevolent fund.


Your Faithfully
Dy. Reg./O.S.D. (Confidential)
For Registrar

Enclosures -

1. Declaration Form (C-3) with envelope.
2. Instructions for paper setters
3. Syllabus prescribed for the paper
4. Question paper for the last year
5. Blank Papers for writing the questions
6. Cover A-1, A-2 & B for Sending the Question Papers



Form No. C-1

(CONFIDENTIAL & MOST URGENT)

Code No. ...104

BASTAR VISHWAVIDYALAYA,

JAGDALPUR (C.G.)

To,

Dated, Jagdalpur the ...12/11/...2018...

Dr. Ramachandh. Shivaram
 Dept. of Law
 Govt. P.G. College, Bhatapara

7. 12.18

Dear Sir / Madam,

I am directed to inform you that Bastar Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiners of the value's for evaluation of answer scripts of the Law of Torts including paper IV carrying L.L. (B) Part I, II, & III. Examination 2018 marks of 100.

- The written part of the examination will commence on January 2018 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form (C-3) on or before 02/11/2018. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the paper set herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that ~~two~~ question paper (s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus (for those who are requested to set Two Question paper's) one of the question paper will be used by the University for Nov/Dec. and the other for March/April Examination under the semester system Examination or one for March/April and other for supplementary Examinations. Under the Annual system of the Examination of Graduation Examination if provided for. The questions papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below Hindi version in all subjects except language paper i.e. Hindi, English, Urdu, Sanskrit for all the Examination and papers of M.Sc., B.E. & Medical Examinations.
- The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent through Registered post insured for ₹ 100/- In double sealed covers (sent herewith) duly sealed at both the ends within 15 days of this letter to the undersigned by the name.
- You are requested to keep your appointment STRICTLY CONFIDENTIAL and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

NOTE: Special attention is invited to the following :-

- If son/daughter/wife/husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts may please be seen in the appendix attached.
- The total remuneration for all the examinations which a person will be entitled to get in a year shall not exceed ₹ 25,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceed ₹ 25,000/- the excess amount shall be credited in the university account.

Yours Faithfully

Registrar

Enclosures :-

- Form of acceptance (C-3) with a cover marked (Acceptance).
- Instructions for paper setters and appendix for the remunerations.
- Syllabus prescribed for the paper.
- Question paper of the last year.
- Cover for sending the question paper.
- Declaration form.

NOTE :- please refer to the instruction attached herewith before your set the paper.



Form No. C-1

(CONFIDENTIAL & MOST URGENT)Code No. **IJ-102****BASTAR VISHWAVIDYALAYA,
JAGDALPUR (C.G.)**

To,

Dr. Ramashish Srivastava

Dated, Jagdalpur the 15/11/2017

Dept of Law

Govt P.G. College Bhatapara.

तत्काल

Dear Sir / Madam,

I am directed to inform you that Bastar Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner/one of the valuer's for evaluation of answer scripts of the Law of Contract & Spec. paper II carrying L.L.B. Part I, I sem. marks of the 1912 100 Examination 2017.

2. The written part of the examination will commence on January 2018 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
3. I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form (C-3) on or before Urgent in case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the paper sent herewith may please be returned with your reply.
4. It is requested that two/one question paper (s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus (for those who are requested to set Two Question paper's) one of the question paper will be used by the University for Nov./Dec. and the other for March/April Examination under the semester system Examination or one for March/April and other for supplementary Examinations. Under the Annual system of the Examination of Graduation Examination if provided for. The questions papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below Hindi version in all subjects except language paper i.e. Hindi, English, Urdu, Sanskrit for all the Examination and papers of M.Sc., B.E. & Medical Examinations.
5. The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent through Registered post Insured for ₹ 100/- In double sealed covers (sent herewith) duly sealed at both the ends within 15 days of this letter to the undersigned by the name.
7. You are requested to keep your appointment STRICTLY CONFIDENTIAL and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

NOTE: Special attention is invited to the following :-

- (a) If son/daughter/wife/husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- (b) The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts may please be seen in the appendix attached.
- (c) The total remuneration for all the examinations which a person will be entitled to get in a year shall not exceed ₹ 25,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceed ₹ 25,000/- the excess amount shall be credited in the university account.

Yours Faithfully

Registrar**Enclosures :-**

1. Form of acceptance (C-3) with a cover marked (Acceptance).
2. Instructions for paper setters and appendix for the remunerations.
3. Syllabus prescribed for the paper.
4. Question paper of the last year.
5. Cover for sending the question paper.
6. Declaration form.

NOTE :- please refer to the instruction attached herewith before your set the paper.



Form No. C-1

(CONFIDENTIAL & MOST URGENT)Code No. **IJ- 120****BASTAR VISHWAVIDYALAYA,
JAGDALPUR (C.G.)**

To, Prof. Ramashish Shrivastava
Deptt. of Law
Govt. P.G. College Bhatapara.

Dated, Jagdalpur the 16/11/2017**तत्काल**

Dear Sir / Madam,

I am directed to inform you that Bastar Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner/one of the valuer's for evaluation of answer scripts of the Alternative Disputes Resolv. paper carrying 50 marks of the 50 Examination 2018.

- The written part of the examination will commence on January 2018 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form (C-3) on or before Urgent in case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the paper sent herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that two/one question paper (s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus (for those who are requested to set Two Question paper's) one of the question paper will be used by the University for Nov./Dec. and the other for March/April Examination under the semester system Examination or one for March/April and other for supplementary Examinations. Under the Annual system of the Examination of Graduation Examination if provided for. The questions papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below Hindi version in all subjects except language paper i.e. Hindi, English, Urdu, Sanskrit for all the Examination and papers of M.Sc., B.E. & Medical Examinations.
- The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent through Registered post Insured for ₹ 100/- In double sealed covers (sent herewith) duly sealed at both the ends within 15 days of this letter to the undersigned by the name.
- You are requested to keep your appointment STRICTLY CONFIDENTIAL and address all correspondence in this connection to the undersigned by name .

NOTE: Special attention is invited to the following :-

- If son/daughter/wife/husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts may please be seen in the appendix attached.
- The total remuneration for all the examinations which a person will be entitled to get in a year shall not exceed ₹ 25,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceed ₹ 25,000/- the excess amount shall be credited in the university account.

Yours Faithfully

Registrar

Enclosures :-

- Form of acceptance (C-3) with a cover marked (Acceptance).
- Instructions for paper setters and appendix for the remunerations.
- Syllabus prescribed for the paper.
- Question paper of the last year.
- Cover for sending the question paper.
- Declaration form.

NOTE :- please refer to the instruction attached herewith before your set the paper.



Form No. C-1

(CONFIDENTIAL & MOST URGENT)Code No. **IJ- 122****BASTAR VISHWAVIDYALAYA,
JAGDALPUR (C.G.)**

To,

...*Dr. Ram Ashish Shrivastava*...
...*Deptt of Law*...
...*Govt. P.G. College Bilaspur*...

Dated, Jagdalpur the *16/11* 20*17***तत्काल**

Dear Sir / Madam,

I am directed to inform you that Bastar Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner/one of the valuer's for evaluation of answer scripts of the Public International paper II carrying L.L.B. Part III, I sem. marks of the 100 Examination 20*18*.

- The written part of the examination will commence on January 2018 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be Urgent thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form (C-3) on or before Urgent in case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the paper sent herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that Two/one question paper (s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus (for those who are requested to set Two Question paper's) one of the question paper will be used by the University for Nov./Dec. and the other for March/April Examination under the semester system Examination or one for March/April and other for supplementary Examinations. Under the Annual system of the Examination of Graduation Examination if provided for. The questions papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below Hindi version in all subjects except language paper i.e. Hindi, English, Urdu, Sanskrit for all the Examination and papers of M.Sc., B.E. & Medical Examinations.
- The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent through Registered post Insured for ₹ 100/- in double sealed covers (sent herewith) duly sealed at both the ends within 15 days of this letter to the undersigned by the name.
- You are requested to keep your appointment STRICTLY CONFIDENTIAL and address all correspondence in this connection to the undersigned by name .

NOTE: Special attention is invited to the following :-

- If son/daughter/wife/husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts may please be seen in the appendix attached.
- The total remuneration for all the examinations which a person will be entitled to get in a year shall not exceed ₹ 25,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceed ₹ 25,000/- the excess amount shall be credited in the university account.

Yours Faithfully

Registrar**Enclosures :-**

- Form of acceptance (C-3) with a cover marked (Acceptance).
- Instructions for paper setters and appendix for the remunerations.
- Syllabus prescribed for the paper.
- Question paper of the last year.
- Cover for sending the question paper.
- Declaration form.

NOTE :- please refer to the instruction attached herewith before your set the paper.



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक: विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
निवास : 07774-231973
फैक्स : 07774-222790

प्रेषक:

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

अनुक्रमांक.....कोड नं. **AH.7.6.17**

सेवा में,

Dr. Ramasheesh Shrivastava
Department of Law
Govt. Naveen Law College, BHATAPARA (C.G.)

महोदय/महोदया

- सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2017..... की परीक्षा के प्राशनिक एवं परीक्षक नियुक्त हुए है। निर्मेय प्रश्नपत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम LL.M. first semester 2017
(ख) विषय का नाम Law
(ग) प्रश्नपत्र Environmental Administration
(घ) समय-तीन घण्टे
(ङ) पूर्णांक 70 न्यूनतम उत्तीर्णांक.....
- (अ) इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राशनिक नियुक्त किये जाने है, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्नपत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा फंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यलयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(क.प.उ.)

डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०)
DOCTOR HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (MP)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)

परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examinations



registrardhsgu@rediffmail.com
www.dhsgsu.ac.in
(Ph.) +91 7582 265712

Examiner No 2284

24 January 2019

To,

Dr. Ramashish Shrivastava
Govt. New Law Degree College,
Bhatapara (CG)

Dear Sir/Madam,

1. I am pleased to inform you that the University has appointed you as **Paper Setter** for **Law Paper IV-6145: Interpretation of Statutes and Principles of Legislation** at **B.A. LL.B. (Hons) VI semester 2019**.
2. You are requested to kindly keep your appointment strictly confidential and address all correspondence quoting Examiner Number given above. Please read the Guidelines/Instructions before setting the question paper. In case, due to any avoidable circumstances, you are not in a position to set the paper, you are requested to inform the same (Declined/Refusal), immediately on receipt of this letter through e-mail at registrardhsgu@rediffmail.com.
3. Question Papers of all examinations shall be bilingual (in English & Hindi languages). However, the papers of **M. Pharm, B. Pharm. MBA, BBA, MCA, BCA, M.Tech.**, are to be set in English only. In case of examination in languages/literature, the question papers may be set in the respective languages either in totality or in part, depending upon the requirements of the course.
4. Please note that none of your child, relative or dependant is appearing in the paper which you are setting, as acceptance of appointment in such case is not permitted by the University.
5. You are requested to kindly set the paper and submit in sealed envelope (enclosed) latest by **17 FEB 2019** positively.
6. Remuneration for paper setting is Rs 1200/- for UG and Rs 1500/- for PG.
7. In case of any reason(s), you are not in position to set the Question Paper, please intimate the same through e-mail within 7-10 days of receipt of this letter positively.
8. I shall be thankful to you for extending cooperation in this matter.

Yours Sincerely,

(Dr. Surendra K. Gadewar)
Controller of Examinations
Controller of Examinations,
Dr. H.S. Gour Vishwavidyalaya,
SAGAR (M.P.)

Enclosures:-

1. Instructions to the Paper Setters and Examiners.
2. Syllabus prescribed for the paper.
3. Sample Paper.
4. Blank papers for writing question paper.
5. Envelope A & B for sending the question paper.

डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०)
DOCTOR HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (MP)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)

परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examinations



registrardhsgu@rediffmail.com
www.dhgsu.ac.in
(Ph.) +91 7582 265712

Examiner No 2293

24 January 2019

To,

Dr. Ramashish Shrivastava
Govt. New Law College
Bhatapara

Dear Sir/Madam,

1. I am pleased to inform you that the University has appointed you as **Paper Setter** for **Law Paper III-LAW-C-8135 – Administrative Law at B.A. LL.B. (Hon's) VIII semester 2019.**
2. You are requested to kindly **keep your appointment strictly confidential** and address all correspondence quoting Examiner Number given above. Please read the Guidelines/Instructions before setting the question paper. In case, due to any avoidable circumstances, you are not in a position to set the paper, you are requested to inform the same (Declined/Refusal), immediately on receipt of this letter through e-mail at registrardhsgu@rediffmail.com.
3. Question Papers of all examinations shall be bilingual (In English & Hindi languages). However, the papers of **M. Pharm, B. Pharm. MBA, BBA, MCA, BCA, M.Tech.,** are to be set in English only. In case of examination in languages/literature, the question papers may be set in the respective languages either in totality or in part, depending upon the requirements of the course.
4. Please note that none of your child, relative or dependant is appearing in the paper which you are setting, as acceptance of appointment in such case is not permitted by the University.
5. You are requested to kindly set the paper and submit in sealed envelope (enclosed) latest by **17 FEB 2019** positively.
6. Remuneration for paper setting is Rs 1200/- for UG and Rs 1500/- for PG.
7. In case of any reason(s), you are not in position to set the Question Paper, please intimate the same through e-mail within 7-10 days of receipt of this letter positively.
8. I shall be thankful to you for extending cooperation in this matter.

Yours Sincerely,

(Dr. Surendra B. Gadewar)
Controller of Examinations,
D.H.S. Gour Vishwavidyalaya,
SAGAR (M.P.)

Enclosures:-

1. Instructions to the Paper Setters and Examiners.
2. Syllabus prescribed for the paper.
3. Sample Paper.
4. Blank papers for writing question paper.
5. Envelope A & B for sending the question paper.

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

CONFIDENTIAL AND MOST URGENT

FORMAT 6

To,

(अतिशीघ्र)

Bilaspur, Dated 27/12/2019

डाँ राम आशिष श्रीवास्तव 1 2019
शासक महान भद्रपारी (द्वारा)

Code No. LC-202

Dear Sir/madam,

1. I'm directed to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishw., Bilaspur has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code LC-202 Subject/Paper Name/Title of paper of Exam code & Name
FAMILAW-LAW+(HINDU+LAW) Constitutional Law of India
(113) B.COM. LL.B. THIRD SEMESTER
carrying (maximum marks) 100 and minimum passing marks 036 of the Annual (Main)/ Semester/Supplementary Examination, DEC. 2019 of Session 2018-19
2. The theory/written part of the examination will commence on DEC. 2019 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
3. I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
4. It is requested that ONE/question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
5. The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within 07 (SEVEN) 3 DAYS to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
6. You are requested to keep your assignment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee, Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- A. If son/dughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- B. The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- C. The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed RS. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

1. Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
2. Instruction for Examiner (s)
3. Remuneration bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
4. Syllabus prescribed for the subject/paper.
5. Declaration form.
6. Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
7. Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and if two paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
8. send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur (C.G.). Pin Code 495001

Yours Faithfully

Controller of Examination

संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नपत्र के संलग्न इकायों में उल्लेखित ही प्रश्नपत्र रचना करेंगे। परीक्षा/अंक योजना के अनुसार ही प्रश्न पत्र रचना करेंगे।

Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.)
Appointment Letter for Examiner
(For Valuation of Answer Sheet)
CBCS/Affiliated College Special Examination Session 2019-20

Confidential

Dear Examiner (Evaluator)

27 December 2019

Examination Serial No.: 2039

Name of Examinee : Dr. Ramashish Shrivastava

1. Please find enclosed answer sheets related to above mentioned subject, quantity $\textcircled{42}$ contained in the envelope / packet, quantity $\textcircled{42}$ for evaluation by you.
2. You are requested to evaluate the answer sheets and return the evaluated answer sheets, Foil and Counter Foil in separate envelopes/packets by 08th Jan. 2020. Kindly endorse in the envelopes, Foil/Counter Foil and answer sheets, Evaluator Code, Name and Address of the Evaluator separately. In case there are answer sheets with more than one Code Number in the envelope, the same be endorsed on the Packet/Envelope.

$\frac{630}{30}$ 15 Rm copy $\frac{630}{15 \times 42}$ $\frac{1200}{1830}$ I/c Controller of Examinations

Instructions For Examiner (Evaluator) of Answer Sheets

1. In case, in the packet/envelope, you find answer sheet(s) pertaining to your near relatives/dependent, please inform and return the same to this Office within 3 days.
Near relatives means, "The term close relation includes wife, son, daughter, grand-daughter, sister, niece, grand nephew, grand-uncle, aunt, first cousin, son-in-law, daughter-in-law, sister-in-law, etc."
2. The answer sheets (maximum seven days allowed for evaluating quantity 340 answer sheets), duly evaluated alongwith Foil & Counter Foil be deposited with University, within specified time.
3. In case of late deposits of evaluated answer sheets/Foil/Counter Foil, under Section 4(1) of the Ordinance 5, the fee will be reduced suitably. In case of inordinate delay in submitting the same, name of the Evaluator (Professor/Associate Professor/Assistant Professor) may be taken off from the Panel of Evaluators.
4. In case, in a packet/envelope, there are answer sheets pertaining to subject(s), not related to your subject, the same may be returned immediately (preferably within 48 hours of receipt of the bundle).
5. You are requested to confirm receipt of packet on e-mail address (coedhsgu@rediffmail.com), subsequently, also send information mail, once the evaluated papers, Foils/Counter Foils are dispatched by speed post.
6. In case of refusal due to reason(s) beyond your control, the same be intimated by e-mail to Controller of Examinations on e-mail address : coedhsgu@rediffmail.com & packet be posted back immediately by speed post.

RECEIPTS

$\textcircled{42}$ copies of above mentioned Examination Serial No. 2039 contained in $\textcircled{01}$ Packet/Envelope is received by the undersigned for evaluation from Dr Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, MP.

Tele No. with STD Code
Mobile No.

(Signature of Evaluator)
Name: Dr. Ramashish Shrivastava
Govt. Naveen Vidhi
Mahavidyalaya, Bhatapara (CG)

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Tel. No. 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

To, Shri Ramkishore Shrivastava
BhopalNo. Ex/C _____ Dated, Raipur the 2/12/19

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

L.L.B. Part I. (First sem) Jurisprudence and Legal TheoryPaper Final carrying 100 marksat the next Des. Sem Examination 2019-20

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presumpting that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below,

I am to request you to let me know on the enclosed form (C-3) on or before A WEEK where there you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply,

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to be given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharm., M.Pharm., B.Voc., B.P.Ed./M.P.Ed., LL.M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of this letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following:-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent along with its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceed Rs. 1500/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs. 1500/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

DehDy. Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures :-

1 Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same

Form No. C-I

Code No. D/1179
CONFIDENTIAL

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)
Tel, No, 2262825

Form,
The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Shri Ramkish Shrivastava
Bhatapora

No. Ex / C ----- Dated, Raipur the 2/12/19

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -
B.A. LL.B. (Part IV) First Sem Exam. Dec 2019
Paper Professional Ethics & Professional Act Accountancy carrying ----- 100 marks
at the next ----- Examination 2019 - 20

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK whetere you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointments. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version is all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.S.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharm., M.Pharm., B.Voc., B.P., Ed/M.P., Ed., LL.M. The question papers are to be set in strict compliances with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs: 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of this letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IP SO FACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following:-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent along with its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceed Rs. 1500 - in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.1500/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully
Deh

Dy. Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Form No. C-I

Code No. D 1223
CONFIDENTIAL

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)
Tel, No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Shri Ramkishore Shrivastava
Bhatapora

No. Ex/C _____ Dated, Raipur the 3/12/19

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

LLB (Part III) (Second Sem)
Paper Fourth Intellectual Property Law and IT Act 2008 carrying 100 marks
at the next Dec Feb Examination 2019/20

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presumpting that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK where there you are willing to accept the above appointment if no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May, June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter it may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version is all subject excepting languages for all the examination leading to B. A., B. Com., B. Sc., B. C. A., B. Lib., LL. B., B. A., LL. B., B. A., M. Com., M. B. A., M. Ed., B. Pharma, M. Pharma, B. Voc., B. P. Ed/M. P. Ed, LL. M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs: 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of this letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent along with its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceed Rs. 1500 - in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs. 1500/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Deh
Dy. Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Code No. D/216
CONFIDENTIAL

Form No. C-1

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR(C.G.)
Tel. No. 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Sri Ramesh Shrivastava
Bhatapora

No. Ex/C ----- Dated, Raipur the 3/12/19

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

L.L.B. (Part III) - (First Sem)
Paper Second Public International Law - marks
at the next Dec-Jan Examination 20 1920

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK where there you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to be given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.S.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharm., M.Pharm., B.Voc., B.P.Ed/M.P.Ed., LL.M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured (for Rs. 100/-) in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of this letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent along with its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceed Rs. 1500/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.1500/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully
Relh

Dy. Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

CONFIDENTIAL

Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY RAIPUR (C. G.)

Tel, No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Shri Ramashish Shrivastava
BhataporaNo. Ex/C Dated, Raipur the 12/12/19

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

LLB Part. II - 2nd Sem. Exam. Dec. 2019
Paper II - Env. Law including wildlife 100 marks
Protection and Animal
at the next welfare Examination 2019

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK wherethere you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It is kindly noted that English version of each question is to be given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., J.B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharma, M.Pharma, B.Voc., B.P.Ed/M.P.Ed., LL.M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs: 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSOFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Deh
Dy. Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures :-

1 Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same



संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

C-01

गोपनीय

प्राशिनक एवं मुख्य परीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र

प्रेषक:

कुलसचिव
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय,
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक : विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
गोपनीय विभाग : 07774-222789
फैक्स : 07774-222790

अनुक्रमांक..... कोड नं. L-20)

सेवा में,

Dr. R. A. Srivastava
Dept. of Law
Govt. College, Bhatapara,
Raipur (C.G.)

महोदय/महोदया

अम्बिकापुर, दिनांक.....

- सूचित करते हुए इयं है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2019 की परीक्षा के प्राशिनक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं।
निर्मेय प्रश्न-पत्र का विवरण निम्नलिखित है।
(क) परीक्षा का नाम LL.B. II Sem. (New Course) Exam. 2019
(ख) विषय का नाम Hindu Law
(ग) प्रश्न पत्र First
(घ) समय-तीन घण्टे ✓
(ङ) पूर्णांक 100 न्यूनतम उत्तीर्णांक 36
- इस प्रश्न पत्र के लिए दो/तीन प्राशिनक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्न पत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पुरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।
- नियुक्ति पत्र प्राप्त के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश अक्षम हैं तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।
- परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागिरी लिपि में दिये जायें।
- भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागिरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
- यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्न पत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त पोटो संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाये। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्न पत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(क.प.उ.)

CONFIDENTIAL

डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०)
DOCTOR HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (MP)
(सेन्ट्रल विश्वविद्यालय / A Central University)

परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examinations



coedhsgu@rediffmail.com
www.dhsgsu.ac.in
(Ph.) +91 7582 265228

Examiner No 2039

23 September 2019

To,

Dr. Ramashish Shrivastava
Shaskiya Naveen Vidhi Mahavidyalaya,
Bhatapara, Chattisgarh

Dear Sir/Madam,

1. I am pleased to inform you that the University has appointed you as **Paper Setter and Evaluator** for **LAW Paper LAW-CC-3165: Public International Law** at **B.A. LL.B. (Hons.) III semester (End Semester) Exam. 2019.**
2. You are requested to kindly **keep your appointment strictly confidential** and address all correspondence quoting Examiner Number given above. Please read the Guidelines/Instructions before setting the question paper.
3. Question Papers of all examinations shall be bilingual (In English & Hindi languages). However, the papers of **M. Pharm, B. Pharm. MBA, BBA, MCA, BCA, M.Tech.,** are to be set in **English only.** In case of examination in languages/literature, the question papers may be set in the respective languages either in totality or in part, depending upon the requirements of the course.
4. Please note that none of your ward(s), relative(s) or dependant(s) is/are appearing in the paper, which you are setting, as Acceptance of Appointment in such case is not permitted by the University.
5. You are requested to set the Question Paper and **submit in sealed envelope (enclosed) by 11 October 2019 positively.**
6. Remuneration for Paper Setting is Rs 1200/- for UG and Rs 1500/- for PG.
7. In case, due to any avoidable circumstances, you are not in a position to set the Paper, you are requested to inform the same (forward your Decline/Refusal), within 2-3 days of receipt of this Letter through e-mail at coedhsgu@rediffmail.com positively, so that alternate arrangements are made expeditiously by us.
8. I shall be thankful to you for extending cooperation in this matter.

Yours Sincerely,

(Col RM Joshi)

Enclosures:-

1. Instructions to the Paper Setters and Examiners.
2. Syllabus prescribed for the Paper.
3. Sample Paper.
4. Blank papers for writing Question Paper.
5. Envelope A & B for sending the Question Paper.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०)
DOCTOR HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (MP)
(उन्नीस विभागात्मक / A Central University)

परीक्षा निबंधक
Controller of Examinations



coedhsgu@rediffmail.com
www.dhsgsu.ac.in
(Ph.) +91 7582 265228

Examiner No 925

11 February, 2020


To,

Dr. Ramashish Shrivastava
Shashkiya Naveen Vidhi Mahavidhyalay
Bhatapara (C.G.)

Dear Sir/Madam,

1. I am pleased to inform you that the University has appointed you as Paper Setter for Law Paper IV : Law-C-414: Property Law at LL.B. (Three years) IV Sem. (New Pattern) Exam. 2020.
2. You are requested to kindly keep your appointment strictly confidential and address all correspondence quoting Examiner Number given above. Please read the Guidelines/Instructions before setting the question paper.
3. Question Papers of all examinations shall be bilingual (In English & Hindi languages). However, the papers of M. Pharm, B. Pharm, MBA, BBA, MCA, BCA, M.Tech., are to be set in English only. In case of examination in languages/literature, the question papers may be set in the respective languages either in totality or in part, depending upon the requirements of the course.
4. Please note that none of your ward(s), relative(s) or dependant(s) is/are appearing in the paper, which you are setting, as Acceptance of Appointment in such case is not permitted by the University.
5. You are requested to set the Question Paper and submit in sealed envelope (enclosed) by 28 February, 2020 positively.
6. Remuneration for Paper Setting is Rs 1200/- for UG and Rs 1500/- for PG.
7. In case, due to any avoidable circumstances, you are not in a position to set the Paper, you are requested to inform the same (forward your Decline/Refusal), within 2-3 days of receipt of this Letter through e-mail at coedhsgu@rediffmail.com positively, so that alternate arrangements are made expeditiously by us.
8. I shall be thankful to you for extending cooperation in this matter.

Yours Sincerely,


IC Controller of Examination

Enclosures:-

1. Instructions to the Paper Setters and Examiners.
2. Syllabus prescribed for the Paper.
3. Sample Paper.
4. Blank papers for writing Question Paper.
5. Envelope A & B for sending the Question Paper.



(CONFIDENTIAL & MOST URGENT) Code No. KJ-126
BASTAR VISHWAVIDYALAY JAGDALPUR (C.G.) 494001
Mail- confidentialbvjdp@gmail.com (Office- 07782229215)

To

Dated, Jagdalpur the 04/05/2020

डा. राजेश्वर शिवराम
आ. पी. सी. कॉलेज
भिरापुरा
खण्डगञ्ज

Dear Sir/ Madam,

I am directed to inform you that Bastar Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner / one of the valuer's for evaluation of answer scripts of the **TRANSFER OF PROPERTY ACT & EASEMENT ACT** paper **FIRST** carrying **L.L.B.PART-III SEMESTER- II** Marks of the **100** Examination **2020**.

1-The written part of the examination will commence on **JUNE -JULY 2020** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers.

2-I shall be thankful if you would kindly send your consent after Receiving the envelope. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the Format sent herewith may please be returned with your reply.

3- It is requested that one question paper be prepared in accordance with enclosed syllabus for **JUNE - JULY 2020 Semester Examination** . It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately bellow Hindi version except language paper i.e. Hindi, English, ,Sanskrit .


4- The question paper is to be set in strict compliance with the sent herewith and be delivered in person or sent through Registered /Speed post in double sealed covers (sent herewith) duly sealed at both the ends within 15 days of this letter to the undersigned by the name.

5-You are requested to keep your appointment **STRICTLY CONFIDENTIAL** and address all correspondence in this connection to the undersigned by name .

Note: Special attention is invited the following:-

- If son /daughter/wife /Husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered ,he is requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith .
- The rate or remuneration prescribed for paper setting/ evaluation of answer script may please be seen in the Remuneration bill attached.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a year shall not excess Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceed Rs. 50,000/- the excess amount shall be credited to the university account.

Yours Faithfully


Asstt. Registrar (Confidential)
Mo. No. 9131813944

Enclosures:-

- 1.Format for setting Question paper (A).
- 2.Syllabus prescribed for the paper.
- 3.Question paper of the last year.
- 4.Cover for sending the question paper.



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

(केन्द्र के लिए)

इति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

D-1195.

केंद्र क्र. 122

महाविद्यालय

केन्द्र/परीक्षा का नाम

H. B. (Part I) I Sem.

विषय

Jurisprudence & Legal Theory

प्रश्नपत्र संख्या

I

उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या --- 257 --- अनुपस्थित एवं अनुचित साधन के प्रकारों के परीक्षार्थियों के रोल

संख्या 1912425007, 5012, 5016, 5029, 5116, 5126, 5138, 5197, 5224,

(ये रोल संख्याएँ इस पत्र के पृष्ठभाग पर दिए जायें) 5229, 5233, 5235, 5238,

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्रेषित का

दिनांक

07/01/2020

5239, 5244, 1534190, 1652397, 1701627,

1811425212 = 19.

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं मील
केंद्र क्र. 122

प्रेषक : कुलसचिव

(कार्यालय के लिए)

कोड नं.

एम. के. नं.

इति,

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा भेजा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि नीचे दिये प्रपत्र में उक्त पुस्तिकाओं की प्राप्ति अधोलिखित अधिकारी के नाम से अलग लिफाफे में तुल्य करें।

दिनांक

कृते कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

प्रेषक : परीक्षक

(इसे परीक्षक परें)

प्रति,

कोड नं.

उपकुलसचिव गोपनीय

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

पत्र क्रमांक

दिनांक

के साथ

परीक्षा केन्द्र की

परीक्षा का नाम

विषय

प्रश्नपत्र संख्या

उत्तर

पुस्तिकाओं का सील किया हुआ बण्डल बिधारे --- उत्तर पुस्तिकायें हैं आपसे रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्राप्त हुआ।

दिनांक

केन्द्र के नाम एवं इम्प्रेस



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

फॉर्म - I

(केन्द्र के लिए)

D-1216

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

केन्द्र क्र. 122

महाविद्यालय

केन्द्र/परीक्षा का नाम LLB - III, CI Sem

विषय Public International Law प्रश्नपत्र संख्या II

उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (120) अनुपस्थित एवं अनुचित सम्पन्न के प्रकारों के परीक्षार्थियों के टोल नम्बर 1652419, 1751643, 73258

(ये टोल नम्बर इस पत्र के पृष्ठभाग पर दिए जायें)

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया नष्टल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्रेषित कर

दिनांक 11/01/20

दिनांक 11/01/20

Signature
5 Jan 2020
केन्द्र अधीक्षक की हस्ताक्षर एवं सील

प्रेषक : कुलसचिव

(कार्यालय के लिए)

कोड नं.

एम. के. नं.

प्रति,

.....

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया नष्टल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्रेषित कर दिया है। आपसे अनुरोध है कि नीचे दिये प्रश्न में उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति अपोलिखित अधिकारी के नाम से अलग लिफाफे में हुआ भेजे।

दिनांक

कृते कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

प्रेषक : परीक्षक

(इसे परीक्षक भों)

प्रति,

कोड नं.

उपकुलसचिव गोपनीय
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

पत्र क्रमांक दिनांक के साथ

परीक्षा केन्द्र की परीक्षा का नाम

विषय प्रश्नपत्र संख्या उत्तर

पुस्तिकाओं का सील किया हुआ नष्टल जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं में आपसे रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्राप्त हुआ।

दिनांक :

..... के नाम एवं हस्ताक्षर



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

(केन्द्र के लिए)

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

10 = ११०००००००
Code No - D - 1216

केन्द्र क्रमांक
103

महाविद्यालय

केन्द्र/परीक्षा का नाम LL.B Part-III First Semester

विषय Public International Law प्रश्नपत्र संख्या Second

उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 105 अनुपस्थित एवं अनुचित साधन के प्रकरणों के परीक्षार्थियों के रोल नम्बर 01

(ये रोल नम्बर इस पत्र के पृष्ठभाग पर दिए जावें)

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया जाएगा आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा भेजा जा रहा है।

दिनांक 11-01-2020

Superintendent

Ravishankar University, Raipur

Government of Chhattisgarh

(कार्यालय के लिए)

प्रेषक : कुलसचिव

कोड नं.

एम. के. नं.

प्रति,

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया जाएगा आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा भेजा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि नीचे दिये प्रश्न में उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति अपोलिखित अधिकारी के नाम से अलग लिफाफे में सुरक्षित भेजे।

दिनांक -

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

प्रेषक : परीक्षक

(इसे परीक्षक धरें)

प्रति,

कोड नंबर

अधिसचिव गोपनीय

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

पत्र क्रमांक दिनांक के साथ

परीक्षा केन्द्र की परीक्षा का नाम

विषय प्रश्नपत्र संख्या उत्तर

पुस्तिकाओं का सील किया हुआ जाएगा विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं में आपसे रेल

/ डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्राप्त हुम्बा।

दिनांक

कोड नं. एवं प्रश्नपत्र

104
120
225



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष-0771-2262825, मोबाइल नं. 98261-97413. (कार्यालय)

(गोपनीय)

प्रेषक :

समन्वयक

केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई

सेमेस्टर परीक्षा, दिसंबर, 2019 (गोपनीय विभाग)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रति,

Dr. Ramesh Singh
Bhatapora

CODE - 1195, 1216

LGSD - 695, 740

Date: 14/1/20

महोदय/महोदया,

उपरोक्त बंडल संख्या की उत्तरपुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु आपके पास भेजी जा रही है, जो उत्तरपुस्तिकाएं आपके पास भेजी जा रही है उनकी संख्या 257+225 है। चूंकि मूल्यांकन कार्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित अनिवार्य सेवा में शामिल है। अतः आपसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित लिखित उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश :-


1. यदि कुल उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या में कोई गिनतता है तो कृपया उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवश्य दें, साथ ही यदि आपका कोई सम्बन्धी किसी ऐसे केन्द्र से परीक्षा दे रहा हो जिस केन्द्र की उत्तरपुस्तिका आपको भेजी गयी है तो कृपया उस केन्द्र की उत्तरपुस्तिकाओं को आप नहीं खोलेंगे तथा उसे विश्वविद्यालय को तुरंत वापस करने का कष्ट करेंगे।
2. परीक्षाफल यथाशीघ्र तथा समय सीमा में घोषित करने की दृष्टि से यह निवेदन है कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का पैकेट/बण्डल मूल्यांकन के पश्चात अलग से प्रदान की गयी लिफाफे में उत्तरपुस्तिका में दिए गये अंकों (गोला किए गये) वाले भाग को अलग करके रखना है और उसे केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई में जमा करें। इसके अभाव में पारिश्रमिक देयकों का भुगतान संभव नहीं होना - ओ.एम.आर. शीट के पहले एवं दूसरे भाग को ही क्रमशः पूर्ण/प्रतिपूर्ण के रूप में उपयोग किया जाना है जिसे मूल्यांकनकर्ता नीला अथवा काला पाईट पेन द्वारा ही भरेंगे। उत्तर-पुस्तिकाओं के अंदर के पृष्ठ पर लाल स्वाड़ी से ही मूल्यांकन किया जाना है। पारिश्रमिक देयक बण्डल के साथ ही अलग से अनिवार्य रूप से जमा करें जिससे कि पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके।
3. कृपया इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाना है, इस हेतु निवेदन है कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक करें।
4. लिखित उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य को गंभीरता से लिया जावे तथा प्रत्येक प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए गए उत्तर का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदान किया जाये।
5. मूल्यांकन करते समय 80 प्रतिशत से अधिक एवं 35 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों के लिखित उत्तर-पुस्तिका में टीप दें ताकि उनके द्वारा अधिकतम अंक प्रदान करते अथवा कम अंक प्रदान करने का कारण परिलक्षित हो। मूल्यांकन करते समय उत्तर गलत या सही होने की दशा में उत्तर में संबंधित अंकों में सही या गलत का स्पष्ट निशान लगावें।
6. मूल्यांकन पश्चात् मानदेय/पारिश्रमिक प्रदाय किये जाने के प्रपत्र को पूर्णतः भली प्रकार से भरें एवं मूल्यांकन केन्द्र में उत्तर-पुस्तिका बण्डल के साथ अलग से जमा करें। अपने मानदेय प्रपत्र में परीक्षा का नाम/वर्ष, अपना नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक/बैंक का नाम/शाखा का नाम/आई.एफ.एस.सी. कोड/पैन नंबर, प्रश्न-पत्र कोड, मूल्यांकित की गई उत्तर-पुस्तिका की कुल संख्या हस्ताक्षर के साथ दिनांक अवश्य अंकित करें। जिससे की परीक्षण कर शीघ्र भुगतान किया जा सके।

नोट : 1. मूल्यांकन नहीं करने की स्थिति में स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

संपर्क :

समन्वयक मो. नं. 9826197413

सहायक समन्वयक मो. नं. 9691409181, 9977889006


समन्वयक/सहा.समन्वयक

के.मूई सेमेस्टर परीक्षा, दिसंबर, 2019



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

(केन्द्र के लिए)

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

D-1211



महाविद्यालय

केंद्र/परीक्षा का नाम

LL.B. (Part II) Second Sem

Env. Laws Including Wildlife / Second

विषय 02

उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या

अनुपस्थित एवं अनुचित साधन के प्रकरणों के परीक्षार्थियों के रोल नम्बर

(ये रोल नम्बर इस पत्र के पृष्ठभाग पर दिए जावें)

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्रेषित कर

रहा है।

दिनांक 15 JAN 2020

केन्द्र क्रमांक 301
केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रेषक : कुलसचिव

(कार्यालय के लिए)

कोड नं.

एन. के. नं.

प्रति,

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा भेजा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि नीचे दिये प्रपत्र में उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति अधोलिखित अधिकारी के नाम से अलग लिफाफे में हुआ भेजे।

दिनांक

कृते कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

प्रेषक : परीक्षक

(इसे परीक्षक परें)

प्रति,

कोड नं.

उपकुलसचिव गोपनीय

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

पत्र क्रमांक दिनांक के साथ

परीक्षा केन्द्र की परीक्षा का नाम

विषय प्रश्नपत्र संख्या उत्तर

पुस्तिकाओं का सील किया हुआ बण्डल विषयों उत्तर पुस्तिकावें हैं आपसे रेल

/ डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्राप्त हुआ।

दिनांक :

परीक्षक के नाम एवं इमरजेंसी



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

(केन्द्र के लिए)

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

महाविद्यालय

केन्द्र/परीक्षा का नाम

B.A.LL.B Part IV First Semr.

Code No. D-1179

विषय

Professional Ethics and

प्रश्नपत्र संख्या

Paper Fifth

(21)

Professional Accounting System

उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या

अनुपस्थित एवं अनुपस्थित साधन के प्रकरणों के परीक्षार्थियों के रोल

नम्बर

NIL

(ये रोल नम्बर इस पत्र के पृष्ठभाग पर दिए जायें)

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्रेषित का

है।

दिनांक 25.1.2020

केन्द्र आपसिक के प्रमुख एवं सील

260

(कायालय के लिए)

प्रेषक : कुलसचिव

कोड नं.

एन. के. नं.

प्रति,

.....
.....

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा भेजा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि नीचे दिये प्रश्न में उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति अधोलिखित अधिकारी के नाम से अलग लिफाफे में सुरक्षित रखें।

दिनांक -

कृते कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

प्रेषक : परीक्षक

(इसे परीक्षक भों)

प्रति,

कोड नंबर

उपकुलसचिव गोपनीय

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

पत्र क्रमांक दिनांक के साथ

परीक्षा केन्द्र की परीक्षा का नाम

विषय प्रश्नपत्र संख्या उत्तर

पुस्तिकाओं का सील किया हुआ बण्डल जिसमें उत्तर पुस्तिकायें हैं आपसे रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्राप्त हुआ।

दिनांक :

कोड के रूप एवं प्रमाण



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

(अनु-1)

(केन्द्र के लिए)

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

D-1179

..... Pt PSU महाविद्यालय UTD

..... 101 केन्द्र/परीक्षा का नाम BALLB (Part-III) 1st Sem

..... Jan-2020 विषय BALLB प्रश्नपत्र संख्या 5th


उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 54 अनुपस्थित एवं अनुचित साधन के प्रकरणों के परीक्षार्थियों के रोल नम्बर Nil

(ये रोल नम्बर इस पत्र के पृष्ठभाग पर दिए जावें)

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्रेषित कर

रहा है।

दिनांक 25/01/2020


 कोषाध्यक्ष
 केन्द्र परीक्षा, विश्वविद्यालय रायपुर
 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
 (कार्यभार के लिए)

प्रेषक : कुलसचिव

कोड नं.
एम. के. नं.

प्रति,

.....
.....

उपरोक्त विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का सील किया बण्डल आपको रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा भेजा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि नीचे दिये प्रपत्र में उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति अधोलिखित अधिकारी के नाम से अलग लिफाफे में सुरक्षित रखें।

दिनांक

कृते कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

प्रेषक : परीक्षक

(इसे परीक्षक भें)

प्रति,

कोड नंबर

उपकुलसचिव गोपनीय
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

पत्र क्रमांक दिनांक के साथ

परीक्षा केन्द्र की परीक्षा का नाम

विषय प्रश्नपत्र संख्या उत्तर

पुस्तिकाओं का सील किया हुआ बण्डल बिना उत्तर पुस्तिकाओं में आपसे रेल / डाक / व्यक्ति विशेष द्वारा प्राप्त हुआ।

दिनांक :

.....
कोषाध्यक्ष के नाम एवं इत्यादि



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष-0771-2262825, मोबाइल नं. 98261-97413 (कार्यालय)

(गोपनीय)

प्रेषक :

समन्वयक

केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई

सेमेस्टर परीक्षा, दिसंबर, 2019 (गोपनीय विभाग)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रति,

Dr. Ramshish Shrivastav
Asst. Navcan Law College
Bhatapara

CODE - 1129/1211

LGSD- 966,974.

Date: 29/1/20

महोदय/महोदया,

उपरोक्त बंडल संख्या की उत्तरपुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु आपके पास भेजी जा रही है, जो उत्तरपुस्तिकाएं आपके पास भेजी जा रही है, उनकी संख्या 25702 है। चूंकि मूल्यांकन कार्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित अनिवार्य सेवा में शामिल है। अतः आपसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित लिखित उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. यदि कुल उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या में कोई भिन्नता है तो कृपया उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवश्य दें। साथ ही यदि आपका कोई सम्बन्धी किसी ऐसे केन्द्र से परीक्षा दे रहा हो जिस केन्द्र की उत्तरपुस्तिका आपको भेजी गयी है तो कृपया उस केन्द्र की उत्तरपुस्तिकाओं को आप नहीं खोलेंगे तथा उसे विश्वविद्यालय को तुरंत वापस करने का कष्ट करेंगे।
2. परीक्षाफल यथाशीघ्र तथा समय सीमा में घोषित करने की दृष्टि से यह निवेदन है कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का पैकेट/बंडल मूल्यांकन के पश्चात् अलग से प्रदान की गयी लिफाफे में उत्तरपुस्तिका में दिए गये अंकों (गोला किए गये) वाले भाग को अलग करके रखना है और उसे केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई में जमा करें। इसके अभाव में पारिश्रमिक देयकों का भुगतान संभव नहीं होगा - ओ.एम.आर. शीट के पहले एवं दूसरे भाग को ही क्रमशः पूर्ण/प्रतिपूर्ण के रूप में उपयोग किया जाना है जिसे मूल्यांकनकर्ता नीला अथवा काला पाइंट पेन द्वारा ही भरेंगे। उत्तर-पुस्तिकाओं के अंदर के पृष्ठ पर लाल स्वाही से ही मूल्यांकन किया जाना है। पारिश्रमिक देयक बंडल के साथ ही अलग से अनिवार्य रूप से जमा करें जिससे कि पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके।
3. कृपया इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु निवेदन है कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक करें।
4. लिखित उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य को गंभीरता से लिया जावे तथा प्रत्येक प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए गए उत्तर का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदान किया जाये।
5. मूल्यांकन करते समय 60 प्रतिशत से अधिक एवं 35 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों के लिखित उत्तर-पुस्तिका में टीप दें ताकि उनके द्वारा अधिकतम अंक प्रदान करते अथवा कम अंक प्रदान करने का कारण परिलक्षित हो। मूल्यांकन करते समय उत्तर गलत या सही होने की दशा में उत्तर में संबंधित अंकों में सही या गलत का स्पष्टतः निशान लगावे।
6. मूल्यांकन पश्चात् मानदेय/पारिश्रमिक प्रदाय किये जाने वो प्रपत्र को पूर्णतः भली प्रकार से भरें एवं मूल्यांकन केन्द्र में उत्तर-पुस्तिका बंडल के साथ अलग से जमा करें। अपने मानदेय प्रपत्र में परीक्षा का नाम/वर्ष, अपना नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक/बैंक का नाम/शाखा का नाम/आई.एफ.एस.सी. कोड/पैन नंबर, प्रश्न-पत्र कोड, मूल्यांकित की गई उत्तर-पुस्तिका की कुल संख्या हस्ताक्षर के साथ दिनांक अवश्य अंकित करें। जिससे की परीक्षण कर शीघ्र भुगतान किया जा सके।

नोट : 1. मूल्यांकन नहीं करने की स्थिति में स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

संपर्क :

समन्वयक मो. नं. 9826197413

सहायक समन्वयक मो. नं. 9691409181, 9977889008

समन्वयक/सहा.समन्वयक
के.मुई सेमेस्टर परीक्षा, दिसंबर, 2019

Form No. G-1

Code No. F 1212

CONFIDENTIAL

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C. G.)

Tel, No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Dr. Ramashish Shrivastava
Bhatapora

No. Ex/O ----- Dated, Raipur the 4/02/21

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

LL.B (Part II) (Second Sem) Labour and Industrial Law I

Paper Third carrying 100 marks

at the next Dec Febr Examination 20 21-22

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight Presumpting that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevent papers on subject as per list given below,

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or befor A WEEK wherethere you are willing to accept the above appointment If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the apppointment. In case you are unable to accept the appointment It is requested that all the papers sent herewith my be returned with your reply,

It is requested the two/one question papers be prepared For those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination, The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version is all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B. Sc., B.C.A., B Lib, LL, B. B.A., LL B., B.B.A., M.Com., M.B.A., M. Ed., B. Pharma, M. Pharma, B.Voc., B.P. Ed/M.P. Ed, LL, M., The question papers are to be set in Strict compliances with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs: 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends,

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSOFACTO, cease to be examiners,

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name'

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary,

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwrth its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to Contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Devi
Dy. Regr./ O. S. D. (Conf.)

for Registrar

Form No. C-1

Code No. F-1171

CONFIDENTIAL

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Tel, No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Shri Ramasis shrivastava

Bhatapara

No. Ex /C ----- Dated, Raipur the 3/12/2021

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

B.A. LL.B. (Part III) (Second Sem.) Exam: Dec.-Jan. 2021-22

Paper I Law of Evidence carrying 100 marks

at the next ----- Sem Examination 2021-22

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below,

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK where you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply,

It is requested the ~~two~~ ^{one} question papers be prepared for those who are requested to set ~~Two~~ Question Papers) in accordance with enclosed syllabus. One of the question papers will be used by the University for the ~~March/April/Dec/May/June~~ Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to be given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A. LL.B., B.B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharma, M.Pharma, B.Voc., B.P. Ed/M.P. Ed. LL.M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs: 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of this letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends,

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following:-


(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceed Rs. 1500 - in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.1500/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully



Dy. Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Form No. G-1

Code No.

E 1211

CONFIDENTIAL

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C. G.)

Tel. No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (G. G.)

To, Shri. Ramakrish Shrivastava
Bhatpura

No. Ex/O ----- Dated, Raipur the 10/8/21

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

LL.B Part II (Second Sem) Environment Laws including
Wildlife Protection and Animal Welfare
Paper Second carrying four marks

at the next June Examination 20 21

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presumpting that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below,

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK where there you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to be given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharm., M.Pharm., B.Voc., B.P.Ed/M.P.Ed., LL.M., The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double scaled covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSOFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceed Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs. 50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Dy. Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

डॉ. राम आशीष श्रीवस्तव
गोविंद साहू, बालकृष्ण विधि
महाविद्यालय आदिपादा (द.ग.)

Dear Sir/madam,

- I'm directed to inform you that Shaheed Nandkumar Patel V.V., Raigarh has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code AA-2039 Subject/Paper Name/Title of paper LAW OF CRIMES II (CRIMINAL PROCEDURE CODE, JUVENILE ACT AND PROBATION OF OFF (104) B.A. L.L.B. (IV SEM.) of Exam code & Name carrying (maximum marks) 100 and minimum passing marks 036 of the Annual (Main)/ Semester/Supplementary Examination, 2021 and 2022 of Session 2021-22
- The theory/written part of the examination will commence on JULY-AUG, 2022 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that ONE/TWO question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
- The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within 07 (SEVEN) DAYS to the Controller of Examination of Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
- You are requested to keep your assignment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the Deputy Registrar Exam of Shaheed Nandkumar Patel, Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- If son/dughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answers/scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed RS. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

- Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
- Instruction for Examiner (s)
- Remuneration Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
- Syllabus prescribed for the subject/paper.
- Declaration form.
- Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
- Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF two paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
- send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Garhumaria, Odisha Road, Raigarh (C.G.) Pin Code 495001

*Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Yours faithfully

Deputy Registrar (Exam)